



SURAJ PRODUCTS LIMITED

Registered Office & Works :

CIN : L26942OR1991PLC002865

Vill. : Barpali, P.O. : Kesramal, Rajgangpur, Dist. : Sundargarh, Odisha, India, PIN : 770017

Tel : +91-94370 49074, e-mail : info@surajproducts.com, suproduct@gmail.com

www.surajproducts.com

Dated: January 27, 2026

The Secretary
Bombay Stock Exchange Limited
(Department of Corporate Services)
Floor 25, P.J.Tower, Dalal Street
Mumbai – 400001

Dear Sir,

Subject: Submission under Regulation 47 of SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

We are enclosing herewith copies of newspaper cutting published pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as detailed herewith:

Paper cuttings of "Business Standard" (English & Hindi Newspaper) published on January 26, 2026 and Utkal Mail (Oriya News Paper) published on January 25, 2026 regarding publication of Notice of Board Meeting to be held on Tuesday the 3rd day of February, 2026 to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2025. Copy of newspaper cuttings in this connection are attached for your reference.

Kindly take the same on record.

Thanking you,
Yours Faithfully,
For Suraj Products Limited

ANANTA
NARAYAN
KHATUA
A.N.Khatua
Digitally signed by
ANANTA
NARAYAN
KHATUA
Date: 2026.01.27
12:26:32 +05'30'

Company Secretary

Encl. as above

Copy to:

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range, Kolkata – 700001

**Indian Institute of Management Ranchi**

CORRIGENDUM - I

IIM Ranchi invites e-tenders from eligible bidders for 'Supply, Installation & Commissioning of Traffic/Speed detection Cameras at IIM Ranchi'. The last date for submission of bids on the e-tender portal has been extended to 03:00 PM on 02.02.2026. For More details, please refer to our website: www.iimranchi.ac.in

**Indian Institute of Management Ranchi**

CORRIGENDUM - I

IIM Ranchi invites tenders from eligible bidders for 'Supply and Installation of MS Fabricated Office Cabins (Prefab Boxes) at IIM Ranchi'. The last date for submission of sealed bids has been extended to 03:00 PM on 02.02.2026. For More details, please refer to our website: www.iimranchi.ac.in

EAST COAST RAILWAY

Tender No. MCSW-Scrap-Diep-25-26-27
Name of the Work: SEGREGATION, LOADING, SHIFTING/TRANSPORTATION OF VARIOUS CATEGORIES OF SCRAP IN CARRIAGE REPAIR WORKSHOP, MANCHESWAR AND UNLOADING/DISPOSAL OF THE SAME AT DESIGNATED PLACES.
Advertised Value: ₹ 64,02,746.32, EMD: ₹ 1,68,100/-
Period of Completion: 24 Months.
Bidding start date: 27.01.2026, Tender closing date & time: 1500 hrs. of 10.02.2026.
Manual offers are not allowed against the tender and any such manual offer received shall be ignored.
Complete details & tender documents will be available at website: www.jreps.gov.in
By, Chief Mechanical Engineer (PDH-II) PR-1044/Q25-26 CRW/Mancheswar

SURAJ PRODUCTS LIMITED
CIN: L29942OR1991PLC002865
Regd. Off: Vii, Baripal, P.O. Kesaram, Raigarh, Dist. Sundargarh, Odisha-770017

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 3rd day of February, 2026, at the Registered Office of the Company to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2025.

By order of the Board
Date: 24.01.2026 A.N.Khulais
Place: Baripal Company Secretary

**HOME LOAN CENTRE BIDHANNAGAR(15342)**

PUBLIC NOTICE

Zonal Office Building (4th Floor), 1/16, V.I.P. Road, Kolkata- 700054. E-mail: sbi.15342@sbi.co.in

AGAINST LOSS OF ORIGINAL TITLE DEED BEARING NO.- I-3416 FOR THE YEAR 2010 IN THE NAME OF DIPENDRA KUNDU

The undersigned beg to state your kind notice that the above noted title deed number I-3416 for the year 2010, in the name of Dipendra Kundu, Address: flat being no. 3A, 3rd floor at 6/2K, Rani Reshmoni Garden Lane, Kolkata-700015 was duly executed and Registered at ADSR SEALDAH, is not traceable and unavailable from the custody of State Bank of India, HLC Bidhannagar on and from 10.09.2025.

The loss/misplacement of the said deed was recorded as Vide O.D.E No. 1226, dated 17.01.2026 with Manikata Police Station. Anybody having any claim, rights, title and/or interest in the aforesaid properties/ deed should lodge a claim with us within 15 days from this date failing which no such claim shall be entertained.

Date: 26.01.2026, Place : Kolkata Authorised officer, SBI, HLC, BIDHANNAGAR

**AXIS BANK**

AXIS BANK LIMITED
Local office : A.C. Market Building, 3rd Floor, 1 Shakespore Sarani, Kolkata - 700017
Registered Office : "Tristar", 3rd Floor Opp. Samurtheshwar Temple Law Garden, Elstbridge Annadabaz - 30004

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTY

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with Proviso to Rule 9(i) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 12.02.2026 for recovery of Rs. 21,32,095.88/- (Rupees Twenty-One Lakhs Thirty-Two Thousand and Ninety-Five only) due under Loan Account as on 15.12.2023 (this amount includes interest till 15.12.2023) with future interest and costs due to the secured creditor from 1) Mr. Mintu Roy (Borrower), S/o Late Jugal Chandra Roy 2) Mrs. Papi Roy, (Co-Borrower), W/o Mintu Roy Please refer the appendical auction schedule for necessary details.

KNOWN ENCUMBRANCES (IF ANY?) Not known to the secured creditor. The purchaser, shall ascertain the unpaid charges towards electricity, maintenance, tax, any other statutory dues and/or dues etc. if any, as applicable.

RESERVE PRICE (IN RS.) Rs. 21,31,200/- (Rupees Twenty-One Lakhs Thirty-One Thousand Two Hundred Only).

EARNEST MONEY DEPOSIT (IN RS.) Rs. 2,13,120/- (Rupees Two Lakhs Thirteen Thousand One Hundred Twenty Only) through DD in favor of Axis Bank Ltd. payable at Kolkata.

BID INCREMENTAL AMOUNT Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only) for each property.

LAST DATE, TIME AND VENUE FOR SUBMISSION OF BIDS / TENDER WITH EMD Till 11.02.2026 latest by 04:00 P.M. at A.C. Market Building, 3rd Floor, (back side lift) 1 Shakespore Sarani, Kolkata - 700017, addressed to The Authorized Officer.

DATE, TIME, AND VENUE FOR PUBLIC E-AUCTION On 12.02.2026 between 11:00 A.M. to 12:00 noon with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal: <https://www.bidsaleauctions.com> e-auction tender documents containing e-auction bid form, declaration etc., are available in the website of the Service Provider as mentioned below.

SCHEDULE - DESCRIPTION OF PROPERTY to be sold

SCHEDULE ABOVE REFERRED TO :-

ALL THAT flat measuring about 625 square feet (Built up area) corresponding to 800 square feet (Super Built Up area) on the 3rd floor of the building named and known as "Udita" and built and constructed at or upon the plot of land measuring about 8 Cottahs, 1 Chittahs and 15 square feet forming part of Dag Nos. 3508/0360, 3508/0366 and 3508/0367 under Khata Nos. 2179 and 1264 J.L. No. 13 in Mouza and under P.S. - Kasbe in the District South 24 Parganas presently known and numbered as municipal premises No. 1/101 Nalinagar Colony - 1 under municipal Ward No. 105 within the limits of Kolkata Municipal Corporation.

For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website viz. <http://www.axisbank.com/auction-retail> and the Bank's approved service provider MIS C1 India Private Limited at their web portal <https://www.bankmisauctions.com>. The auction will be conducted online through the Bank's approved service provider MIS C1 India Private Limited at their web portal <https://www.bankmisauctions.com>.

For any other assistance, like inspection the intending bidders may contact Mr. Md Shadab Alam (9803610318) officer of the Bank during office hours from 9:30 a.m. to 4:00 p.m.

Date: 26.01.2026
Place: Kolkata
Authorised Officer, Axis Bank Limited

AFFIDAVIT

I, Sh. Mirajur Rahman, S/o L.J. Abdul Haque, residing at Dibradighi Near High School, P.O. - Bageshatpala, PS- Burdwan, Dist- Purba Bardhaman, Pin- 713101. My actual name is Sh. Mirajur Rahman. Which is recorded in my Aadhar Card (being no. -943327842233) and also in my Voter Card (being no. UWX1548429). And my son's name Md Umair, which is recorded in his Aadhar Card (being no. 901014137641). But my name wrongly recorded in my son's Passport (being Passport No. -22820923) as Mirajul Rahman. E/o Md Umair, Sh. Mirajur Rahman and Mirana Rahman both are same and one identical person, vide affidavit before the 1st Class Judicial Magistrate at Purba Bardhaman, on dated 19.01.2026.

AFFIDAVIT

I, SRI JAYANTA SAHA, S/o Sri Jahar Lal Saha residing at Banku Chatterjee Lane, W.O. & P.S. - Malisaha, Dist - North 24 Parganas, Pin-713134, W.B., My son's actual name is SOURIN SAHA, which has been recorded in his Birth Certificate reg. No. WB_88_2012/20020/1/3916 and also in his Aadhar Card No. 5558 6290 6151. My son's name has been recorded as ANIN SAHA in my PPO vide No. 231842206804 dated 22/09/2022 under details of my family members. SOURIN SAHA and ANIN SAHA both are same and one identical person vide affidavit no. 56 before the Court of the 1st Judicial Magistrate, 1st Class, at Barisikarpore, on dated 02.05.2025.

RAGHUNATHPUR MUNICIPALITY

Chairman on behalf of Board of Councilors, Raghunathpur Municipality is hereby inviting e-auction for sale of non scrap materials within Raghunathpur Municipality (Corrigendum Notice).

Sl.	Particulars	Date	Time
1	Publication of e-auction notice	08.01.2026	2.30 P.M. onwards
2	Document submission start date	08.01.2026	2.30 P.M. onwards
3	Document submission end date and time	31.01.2026	05.55 P.M.
4	Documents approval start	02.02.2026	10.30 A.M. onwards
5	Document approval end	05.02.2026	06.55 P.M.
6	Auction start date	06.02.2026	11.00 A.M.
7	Auction end date	06.02.2026	up to 2.00 P.M.

Auction Id-2025 WB_5312

For more details Please log on to <https://eauction.gov.in/s/auction/app>

Sd/-
Chairman
Raghunathpur Municipality

FORM NO. URC-2

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI (Pursuant to section 374(b) of the companies Act, 2013 and rule 4(i) of the companies (Amendment) Regulation Rules, 2014)

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of section 366 of the Companies Act, 2013, an application has been made to the Central Registration Centre that a Partnership firm may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act 2013, as a company limited by shares. The principal objects of the company are as follows:

1. To undertake conversion of the Partnership firm namely **M/s POWER LINE ACCESSORIES** into a "Private Limited Company" under Part I from section 366 to 374 Chapter XXI of the Companies Act, 2013 with the intention of continuing to carry on the business of the Partnership firm through the Company limited by shares and so that an registration all the property, movable and immovable (including actionable claims if any) belonging to or vested in the said Partnership firm on the date of registration shall pass on to and vest in the company so registered.
2. To fabricate steel structures, manufacture Electrical Hardware fittings, High Voltage Insulators, Fabrication, AB Switches & DO Fuses, Solar structures etc., or to carry on such other business or businesses as the parties hereto may from time to time mutually decide.

A copy of the draft memorandum and articles of association of the proposed company may be inspected at the registered office at 31, Industrial Area, Bhanupur, Raipur (C.G.) 493221.

Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Central Registration Centre at Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, Gurgaon (Haryana) - 122050, within twenty one days from the date of publication of this notice, with a copy to the Partnership Firm at its Registered office.

For Power Line Accessories
MANOJ KHADELWAL
Partner

Date: 26.01.2026

**झारखण्ड राज्य विद्वत्संघ काँपोरेशन लिमिटेड, राँची**
(झारखण्ड सरकार का उपक्रम)
कॉर्पोरेट पंखन नं० - U51228/JH20105GCG014519,
TIN No - 20520108277
E-mail - jabcl.jharkhand@gmail.com
उत्पाद भवन, बुलट, बर्लाह पुब्लिक केड के समीप,
काँके रोड, राँची- 834008

बति अल्पकालिन ई-आमंत्रण पत्रांक सं०-JSBCI/03 दिनांक- 24.01.2026
इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु अति अल्पकालिन ई-आमंत्रण सूचना
झारखण्ड राज्य विद्वत्संघ काँपोरेशन लिमिटेड, राँची
गोदावरी हेतु इच्छा की अभिव्यक्ति हेतु अति अल्पकालिन ई-आमंत्रण सूचना

क्रमांक	विवरण	अवस्यक्ति
1	इच्छा की अभिव्यक्ति के पत्र को वेबसाइट https://jharkhandtenders.gov.in एवं http://jsbcl.in पर अपलोड करने की तिथि	दिनांक-25.01.2026
2	इच्छा की अभिव्यक्ति को ऑनलाइन https://jharkhandtenders.gov.in के माध्यम से जमा करने की प्रारंभिक तिथि	दिनांक- 26.01.2026
3	इच्छा की अभिव्यक्ति का Online रूप से जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक- 02.02.2026 के उपरांत 08:00 बजे तक
4	इच्छा की अभिव्यक्ति के कागजात को इच्छा रूप से निम्न मुख्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक- 03.02.2026 को उपरांत 04:00 बजे तक
5	इच्छा को अभिव्यक्ति को ऑनलाइन / ऑफलाइन माध्यम से तकनीकी रिट जातने की तिथि	दिनांक- 04.02.2026 के उपरांत 03:00 बजे तक

नोट:- (1) इच्छा की अभिव्यक्ति को विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु <https://jharkhandtenders.gov.in> पर <http://jsbcl.in> पर ऑनलाइन किया जा सकता है।
(2) इच्छा की अभिव्यक्ति सू आवेदन ऑनलाइन <https://jharkhandtenders.gov.in> माध्यम से ही स्वीकार की जायेगी एवं इसकी प्रतिलिपि केवल झारखण्ड राज्य विद्वत्संघ काँपोरेशन लिमिटेड मुख्यालय में जमा की जायेगी।

सदर-आह्वान (निवेदन)
झारखण्ड राज्य विद्वत्संघ काँपोरेशन लिमिटेड, राँची।

PR.NO.371587 Excluse(25-26).D

**HINDUJA HOUSING FINANCE**
Hinduja Housing Finance Limited
Corporate Identity Number: U65927TN2015PLC100093
Regd. Office: No. 27A, Developed Industrial Estate, Guindy, Chennai, Tamil Nadu - 600032.
Head Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai, Tamil Nadu - 600015.
Website: www.hindujahousingfinance.com
Email: compliance@hindujahousingfinance.com
Statement of Financial Results for the Quarter ended December 31, 2025

Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31-12-2025	Quarter ended 31-12-2024	Previous year ended 31-03-2025
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	47,177.47	41,604.92	1,66,208.07
2	Net Profit/(Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items	12,012.27	12,171.56	46,014.30
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax after Extraordinary and/or Extraordinary Items	12,012.27	12,171.56	46,014.30
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Extraordinary and/or Extraordinary Items)	8,916.30	8,379.22	37,174.25
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	10,955.55	8,542.58	31,704.38
6	Paid up Equity Share Capital	23,867.74	23,867.74	23,867.74
7	Reserves (excluding Retention Reserve)	1,12,495.36	1,40,784.09	1,40,389.03
8	Securities Premium Account	25,414.04	25,414.04	25,414.04
9	Net Worth	2,21,687.74	1,80,015.87	1,89,670.86
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	10,23,343.93	9,86,296.67	1,30,902.08
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	4.62	5.19	5.12
13	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations	1.74	3.91	16.58
	1. Basic	1.74	3.91	16.58
	2. Diluted	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15	Debitum Redemption Reserve	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA

Notes:

1. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the stock exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the Bombay Stock Exchange (BSE) website (<http://www.bseindia.com>) and on the company's website <https://www.hindujahousingfinance.com>.
2. The unaudited standalone financial results of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended from time to time) and notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"). The Company has applied its significant accounting policies in the preparation of these financial results consistent with those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2025.
3. The financial results for the period ended December 31, 2025 have been subjected to Limited review by the Statutory auditors of the company. The same were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their board meeting held on January 24, 2026.
4. The figures of the previous periods have been regrouped and/or reclassified to conform to the current period's classification.
5. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made in the Bombay Stock Exchange (BSE) website (<http://www.bseindia.com>) and on the company's website <https://www.hindujahousingfinance.com>.
6. The statement containing the salient features of all the documents, as specified in Section 136 of Companies Act, 2013 and rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available. To address the same, the borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of AIF for an amount as mentioned herein under with interest thereon.

Place: Chennai
Date: 24-01-2026

For Hinduja Housing Finance Limited
Sachin Pillai
Managing Director

**ADITYA BIRLA**
UltraTech

Taking concrete action for a sustainable future

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Three and Nine Months ended 31/12/2025

₹ in Crores					
Sr. No.	Particulars	Three months ended 31/12/2025	Nine Months ended 31/12/2025	Three months ended 31/12/2024 (Restated) [Refer Note - 3]	Year ended 31/03/2025
1	Total Income from Operations	21,965.26	63,202.01	18,026.15	76,699.30
2	Net Profit for the period before Taxes (before Exceptional Item)	2,372.25	7,674.26	1,691.27	7,625.56
3	Net Profit for the period before Taxes (after Exceptional Item)	2,283.07	6,946.65	1,691.77	7,328.13
4	Net Profit for the period after Taxes	1,729.44	5,188.33	1,363.44	6,039.64
5	Total Comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	1,643.52	5,383.72	1,443.03	6,711.45
6	Paid-up equity share capital (Face Value ₹ 10/- Per Share)	294.68	294.68	288.70	294.68
7	Reserves incl. Securities Premium	73,413.13	73,413.13	62,152.08	70,411.53
8	Securities Premium	11,311.88	11,311.88	5,490.98	11,311.07
9	Net Worth	77,721.12	77,721.12	68,891.59	73,893.36
10	Outstanding Debt	23,035.16	23,035.16	25,694.77	23,030.99
11	Outstanding redeemable preference shares (63,50,883 shares of ₹ 100/- each)	-	-	-	63.51
12	Debt-Equity ratio (in times)	0.30	0.30	0.37	0.31
13	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (Not Annualised): (a) Basic (b) Diluted	58.66 58.62	176.21 176.09	46.21 46.17	205.30 205.13
14	Debitum Redemption Reserve	37.50	37.50	37.50	37.50
15	Debt Service Coverage Ratio (in times)	5.53	5.17	5.56	4.88
16	Interest Service Coverage Ratio (in times)	7.65	7.88	7.05	7.74

Notes:

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meetings held on 24/01/2026.
2. The Government of India has notified the Code on Wages, 2019, the Industrial Relations Code, 2020, the Code on Social Security, 2020 and the Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020 ("Labour Codes") with effect from 21/11/2025, which consolidates 29 existing labour laws. The Labour Codes, amongst other things, introduce changes, including a uniform definition of wages and enhanced benefits relating to leave. The Ministry of Labour & Employment has issued draft Central Rules and FAQs to facilitate assessment of the financial impact arising from these regulatory changes. In accordance with the guidance issued by the Institute of Chartered Accountants of India and based on actual valuation, the Group has assessed and disclosed the financial impact of these changes as "Statutory Impact of New Labour Codes" under Exceptional Items in the financial results for the three months ended and nine months 31/12/2025. The Group has recognized ₹ 88.48 Crores as Statutory Impact of New Labour Codes towards additional Gratuity and Compensated Absences, classified as past service cost primarily due to the revised definition of wages under the Labour Codes. The Group continues to monitor the developments relating to the implementation of the Labour Codes and will review the estimates as further clarification and Rules are notified.
3. The Composite Scheme of Arrangement between Kesam Industries Limited ("Kesam"), the Company and then respective shareholders and creditors, in compliance with sections 230 to 232 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Scheme"), is effective from 01/03/2025. The Appointed Date of the Scheme is 01/04/2024. Upon the Scheme becoming effective and with effect from the Appointed Date, the Cement Business Division of Kesam ("the Demerged Undertaking") as defined in the Scheme stands transferred to and vested in the Company as a going concern. Consequently, the Company has restated its financial results with effect from 01/04/2024 (which is deemed to be the acquisition date for purpose of Ind AS 103 - Business Combinations) to include the financial results of the Demerged Undertaking. As per Ind AS 103, purchase consideration has been allocated on a provisional basis, pending determination of the fair value of the acquired assets and liabilities. Costs related to acquisition (including stamp duty on assets transferred) have been charged to Statement of Profit and Loss on the appointed date. Company's Key Financial Parameters excluding the impact of Composite Scheme of Arrangement with Kesam Industries Limited (KIL):

₹ in Crores

Particulars	Three Months Ended 31/12/2024
Revenue from Operations	17,193.33
Profit Before Depreciation, Interest, Exceptional Items and Tax Expense	3,131.38
Profit Before Tax Expense	1,831.52

4. During the previous year ended March 31, 2025, the Company had acquired a controlling stake representing 81.49% of the equity share capital of The India Cements Limited ("ICEM") in three stages. On 27/06/2024, the Company had acquired a non-controlling stake representing 27.77% of the equity share capital of ICEM for a cash consideration of ₹ 1,942.86 crores. Further on 24/12/2024, the Company acquired a controlling stake representing 32.72% of the equity share capital (promoter & promoter group and another shareholder's equity stake) of ICEM. The Company's total shareholding increased to 17,19,35,887 equity shares representing 55.49% of ICEM's equity share capital, resulting in ICEM becoming a subsidiary of the Company with effect from 24/12/2024. The Company became the promoter of ICEM in accordance with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As per the provisions of the Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011, as amended ("SAST Regulations"), the Company had made an open offer to the public shareholders of ICEM to acquire equity shares representing 16% of the equity share capital at a price of ₹ 399/- per share. Total shareholding of the Company in ICEM post-acquisition of shares from public shareholders under the open offer was 25,25,29,166 equity shares representing 81.49%. The Company had sold 1,82,47,146 equity shares (representing 5.89% of the equity share capital of ICEM) on 21/08/2025 and 21/08/2025 through an Offer for Sale ("OFS") conducted via the Stock Exchange Mechanism in accordance with SEBI's Master Circular No. SEBI/HQ/ MRDP02/CIR/P/2024/00181 dated December 30, 2024. During the quarter under review, the Company further disposed of the unsubscribed portion of the OFS, comprising 18,65,162 equity shares (representing 0.60% of ICEM's equity share capital), through open market transactions. As a result of the above, the Company's shareholding in ICEM now stands at 74.99% of ICEM's equity share capital. Consequently, ICEM has achieved compliance with the minimum public shareholding requirements prescribed under Rule 19A of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, read with the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, well within the stipulated period of 12 months from the completion of the Open Offer. The above results include the financial results of ICEM w.e.f. 25/12/2024 and hence the figures for the three months and nine months ended 31/12/2025 are not comparable with the three months and nine months ended 31/12/2024. As per Ind AS 103, purchase consideration has been allocated basis the fair value of the assets acquired and liabilities as at the acquisition date as per the requirements of Ind AS 103.

5. The Company (Including The India Cements Limited) had filed appeals against the orders of the Competition Commission of India (CCI) dated 31/08/2016 (Penalty of ₹ 1,804.31 Crores) and 19/01/2017 (Penalty of ₹ 68.30 Crores). Upon the National Company Law Appellate Tribunal ("NCLAT") disallowing its appeals against the CCI order dated 31/08/2016, the Company filed appeals before the Hon'ble Supreme Court which has, by its order dated 5/10/2018, granted a stay against the NCLAT order. Consequently, the Company has deposited an amount of ₹ 1,80.43 Crores equivalent to 10% of the penalty of ₹ 1,804.31 Crores. The Company, backed by legal opinions, believes that it has a good case in the matters and accordingly no provision has been recognised in the results.
6. Key Standalone Financial Information:

₹ in Crores				
Particulars	Three Months ended 31/12/2025	Nine Months ended 31/12/2025	Three months ended 31/12/2024 (Restated) [Refer Note - 3]	Year ended 31/03/2025
Total Income from Operations	20,169.49	57,896.20	17,123.05	72,588.39
Net Profit for the period before Taxes	2,052.59	6,508.62	1,645.68	7,697.01
Net Profit for the period after Taxes	1,510.97	4,806.61	1,324.31	6,192.63

7. For the other line items referred in Regulation 52(4) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, pertinent disclosures have been made to the stock exchanges and can be accessed on the websites of the stock exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and that of the Company's website www.ultratechcement.com

8. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results filed with the stock exchanges under Regulations 33 and 52 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results is available on the website of the stock exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com and that of the Company's website www.ultratechcement.com. The results can also be accessed by scanning the QR

For and on behalf of the Board of Directors

K.C. Jhanwar
Managing Director

Place : Mumbai
Date : 24/01/2026

**UltraTech Cement Limited**

Regd Office: 'B' Wing, Ahura Centre, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093
Phone: 022 6691 7800 | Fax: 022 6692 8109 | Website: www.ultratechcement.com
CIN: L26940MH2000PLCT28420



Scan to Read

**UltraTech CONCRETE**



WE MAKE GOOD CONCRETE BETTER

**Birla White CEMENT**

The Engineer's Choice

**UltraTech CEMENT**

The Engineer

<p align="center">NOTICE</p> <p>Written offers are invited by the Trustees of "The Zoroastrian Radhi Society" at correspondence address being at "Advocate Yogesh Singh, G/12, Rizvi Park, S.V. Road, Santacruz (West), Mumbai 400 054", in sealed envelope for sale of property "on as is where is basis" being "Land bearing C.T. No. 560 falling under Survey No. 1, Hissa No. 14 total admeasuring about 519 sq. mtrs approximately, situate at Oshwaria Village, Jogeshwari (West), Mumbai 400 102".</p> <p>Sealed offers should be delivered within 30 days from the date of publication at the correspondence address mentioned herein above. The offeror should provide their profile with full particulars of financial capabilities and activities of themselves and their group companies to show their bonafides. Time is the essence of the contract and offers received after 30 days shall not be entertained.</p> <p>A copy of the terms and conditions for sale of Trust property will be available at the above address; on any working day from 29th January, 2026 till 25th February, 2026 between 12:00 Noon to 4:00 pm, from correspondence address mentioned herein above on payment of Rs. 5,000/-. The last date for receiving offer by the Trust is 26th February, 2026. The offerors shall strictly be adhering to the terms and conditions laid by the Trust.</p> <p>Person's interested in making a bid shall along with their offer letter, enclose a Demand Draft or a Pay Order only in favor of "The Zoroastrian Radhi Society" for 25% of the offer amount. The said amount will be refunded without interest in case the offer is not accepted, however, once the offer is accepted, the earnest money or any other payment made there after shall not be refunded. The sale of the said property will be subject to the sanction by the Charity Commissioner, Maharashtra State, Mumbai.</p> <p>Offers will be opened at 3:30 pm on 02nd March, 2026 at the above address, wherein the offerors may remain present. Conditional offers or incomplete forms shall not be considered and the Trust reserves the right to accept or reject the offers with or without modification.</p> <p>Date: 26.01.2026</p> <p align="right">For The Zoroastrian Radhi Society Sd/- (Trustee)</p>				
 <p align="center">HINDUJA HOUSING FINANCE Hinduja Housing Finance Limited Corporate Identity Number : U65922TN2015PLC100093 Regd. Office: No. 17A, Developed Industrial Estate, Guindy, Chennai, Tamil Nadu - 600032. Head Office: No. 267-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai, Tamil Nadu - 600015 Email: compliance@hindujahousingfinance.com Statement of financial results for the Quarter ended December 31, 2025</p>				
Sl. No.	Particulars	Quarter ended 31-12-2025	Quarter ended 31-12-2024	Rs. In Lakhs Previous year ended 31-03-2025
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	47,177.47	41,674.62	1,66,208.07
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary item(s))	12,012.27	12,171.56	49,014.30
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary item(s))	12,012.27	12,171.56	49,014.30
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary item(s))	8,916.93	9,378.22	37,174.21
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	10,865.95	8,342.58	31,704.38
6	Paid up Equity Share Capital	23,867.74	23,867.74	23,867.74
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	1,72,405.96	1,40,734.09	1,40,389.08
8	Securities Premium Account	25,414.04	25,414.04	25,414.04
9	Net worth	2,21,687.74	1,90,015.87	1,89,670.86
10	Paid up Debt Capital/Outstanding Debt	10,23,343.93	9,96,286.67	9,90,902.98
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	NA	NA	NA
12	Debt Equity Ratio	4.62	5.19	5.12
	Earnings Per Share (of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations) -			
1. Basic:		3.74	3.93	15.58
2. Diluted:		3.74	3.93	15.58
		Not Annualised	Not Annualised	Not Annualised
14	Capital Redemption Reserve	NA	NA	NA
15	Debenture Redemption Reserve	NA	NA	NA
16	Debt Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
17	Interest Service Coverage Ratio	NA	NA	NA
Notes:				
1. The above is an extract of the detailed format of the quarterly financial results filed with the stock exchange under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the quarterly financial results is available on the Bombay Stock Exchange (BSE) website (URL:https://www.bseindia.com) and on the company's website https://www.hindujahousingfinance.com.				
2. The unaudited standalone financial results of the Company has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) as per the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended from time to time) and notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"). The company has applied its significant accounting policies in the preparation of these financial results consistent with those followed in the annual financial statements for the year ended March 31, 2025.				
3. The financial results for the period ended December 31, 2025 have been subjected to Limited review by the Statutory auditors of the company. The same were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their board meeting held on January 24, 2026.				
4. The figures of the previous periods have been regrouped and/or reclassified to conform to the current period's classification.				
5. For the other line items referred in regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Bombay Stock Exchange (BSE) website (URL:https://www.bseindia.com) and on the company's website https://www.hindujahousingfinance.com.				
6. The statement containing the salient features of all the documents, as specified in Section 136 of Companies Act, 2013 and rules made thereunder can be accessed from the web link https://www.hindujahousingfinance.com/pdf/header/annualreport/HHF_Annual%20Report%2024-25.pdf				
				
<p>For Hinduja Housing Finance Limited Sachin Pillai Managing Director</p>				
<p>Place: Chennai Date: 24-01-2026</p>				

 <p>Indian Institute of Management Ranchi</p> <p><u>CORRIGENDUM - I</u></p> <p>IIM Ranchi invites e-tenders from eligible bidders for 'Supply, Installation & Commissioning of Traffic/Speed Detection Cameras at IIM Ranchi'. The last date for submission of bids on the e-procurement portal has been extended to 03:00 PM on 02.02.2026. For More details, please refer to our website: www.iimranchi.ac.in</p>	 <p>Indian Institute of Management Ranchi</p> <p><u>CORRIGENDUM - I</u></p> <p>IIM Ranchi invites tenders from eligible bidders for 'Supply and Installation of MS Fabricated Office Cabins (Prefab Boxes) at IIM Ranchi'. The last date for submission of sealed bids has been extended to 03:00 PM on 02.02.2026. For More details, please refer to our website: www.iimranchi.ac.in</p>
--	---

SURAJ PRODUCTS LIMITED CIN-126942OR1991PLC002865 Regd. Off: Vill: Barpali, P.O. Kesramal Rajgangpur, Dist. Sundargarh, Odisha-770017		PUBLIC NOTICE The General Members of Public are informed that one of our members Mr. UPENDRA RASIKUL SHAH, holding 60 (sixty) Shares of Rs. 100/- each, bearing District No. 7869 to 7928 (both inclusive), contained under Duplicate Share Certificate No. 262 ("the Shares" and "the Share Certificate", respectively), issued by The Giraigon Co-operative Housing Society Limited, Co-operative Society, formed and registered under the Co-operative Societies, Bombay Act VII of 1925, duly registered under the Registration No. B-261 of 1945 dated 13th October, 1945; consequently and incidentally, right to use, occupy and possess a Flat No. 1, admeasuring about 562 sq. feet (carpet) ("Flat"), located on 01st floor of the C Wing of the building known as Utarkash, which is standing on all that piece and parcel of the land bearing C. S. No. 1/631 of Giraigon Division, situate, lying and being at Tilak Nagar, S. V. P. Road, Mumbai - 400 004, represented to us that he has lost/misplaced his Original Share Certificate and applied for issuance of Duplicate Share Certificate.	
Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, the 3rd day of February, 2026, at the Registered Office of the Company to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended December 31, 2025.		By order of the Board _____ A.N.Khatua Company Secretary	
Date: 24.01.2026 Place: Barpali			
PUBLIC NOTICE Notice is given to general public that flat number 4/16 of Jaihar Smriti CHS Ltd., Azarey Road, Goregaon West, Mumbai 400062 is owned by Mr. Umesh Nandkumar Deshpande. Mr. Prashant Nandkumar Deshpande and Mr. Narendra Nandkumar Deshpande Mr. Umesh Nandkumar Deshpande passed away on 11.10.2024 leaving behind no legal heirs of Class I under Indian Succession Act, 1925 and therefore the flat is intended to be transferred to legal heirs of Class 2, viz. Mr. Prashant Nandkumar Deshpande and Mr. Narendra Nandkumar Deshpande. The name of Mr. Umesh Nandkumar Deshpande is to be deleted from Share Certificate No. 191, dated 22.12.2015 for 5 shares of Rs. 50/- each, bearing distinctive numbers from 656 to 660. Any person having any claim, right, title, or interest in the said flat/shares by way of inheritance, mortgage, charge, sale, gift, lease, lien, or otherwise, is hereby invited to make the same known in writing to the Secretary of Jaihar Smriti CHS Ltd. within 14 days from the date of publication of this notice. If no claims or objections are received within the prescribed period, the Society shall be free to deal with the shares and the interest of the deceased member in the capital property of the Society in the manner provided under the Bye-laws of the Society. A copy of the Bye-laws of the Society is available for inspection by claimants/objectors at the Society office during office hours until the expiry of this notice period. Place: Mumbai for and on a behalf of Date: 26/1/2025 Jaihar Smriti CHS Ltd Sd/ Hon Secretary			
For The Giraigon Co-operative Housing Society Limited _____ Sd/- (Secretary/Authorised Signatory)			
Dated this 26th day of January, 2026			

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens —
every Monday in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to
57575 or email **order@bsmail.in**



Business Standard Insight Out

 businessstandard  bsindia  business.standard

business-standard.com

2 कंपनी समाचार

संक्षेप में

अदाणी : विमान इकाई का ऐलान अगले सप्ताह

अदाणी समूह और ब्राजील की प्रमुख एरोस्पेस कंपनी एम्ब्रयर अगले सप्ताह भारत में नागरिक विमानों के लिए एक 'फाइनल असेंबली लाइन' (विमानों को जोड़ने और तैयार करने की इकाई) स्थापित करने की योजना की घोषणा करेंगे। देश में विमान विनिर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देने की दिशा में इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते नागर विमानन बाजारों में से एक है। एयरलाईस द्वारा बेड़े का विस्तार करने और नए हवाई अड्डों के निर्माण के कारण हवाई यातायात की मांग लगातार बढ़ रही है। सूत्रों के अनुसार, अदाणी डिफेंस एंड एरोस्पेस और एम्ब्रयर के अधिकारियों द्वारा 27 जनवरी को राष्ट्रीय राजधानी में नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू की उपस्थिति में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। *भाषा*

नीतिगत निरंतरता पर हो बजट में ध्यान : स्कोडा

स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्य अधिकारी पीयूष अरोड़ा का कहना है कि आगामी आम बजट में नीतिगत निरंतरता, अवसंरचना का विकास और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना ऑटोमोबाइल क्षेत्र की रफ्तार बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होगा। स्कोडा, फोक्सवैगन, ऑडी, बेंटले, लैंबार्गिनी और पोशैं जैसे छह ब्रांड के भारतीय परिचालन का प्रबंधन करने वाले पुणे स्थित इस समूह ने वैश्विक एकीकरण को समर्थन देने के लिए सीमा शुल्क सुधारों और द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के महत्व पर भी जोर दिया। *भाषा*

हिंदुस्तान कॉपर बनी पसंदीदा बोलीदाता

सार्वजनिक क्षेत्र की हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल) मध्यप्रदेश के सीधी जिले में स्थित बाघवारी-खिरखोरी तांबा और संबंधित खनिज ब्लॉक के लिए पसंदीदा बोलीदाता बनकर उभरी है। कंपनी ने फॉरवर्ड ई-नीलामी में उच्चतम अंतिम मूल्य की बोली लगाकर यह सफलता हासिल की है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि खनन पट्टे को शामिल करने वाले कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी 22 जनवरी को सफलतापूर्वक पूरी हुई, जिसकी सूचना शनिवार को मिली। कंपनीएल ने मध्यप्रदेश सरकार के भूविज्ञान और खनन निदेशालय द्वारा 31 अक्टूबर 2025 को जारी निविदा सूचना में भाग लिया था। *भाषा*

अगले वित्त वर्ष मजबूती की उम्मीद : टाटा टेक

वैश्विक भू-राजनीतिक और आर्थिक वातावरण अनिश्चित होने के बावजूद टाटा टेक्नालजीज लिमिटेड कुल वृद्धि के लिहाज से अगले वित्त वर्ष के बहुत मजबूत होने की उम्मीद कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी और एमडी वारेन हैरिस ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय वाहन विनिर्माताओं के अपने निवेश को आगे बढ़ाने के फैसले से टाटा टेक्नालजीज को लाभ होगा। कंपनी एक वैश्विक उत्पाद इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवा फर्म है, जिसने पिछले साल जर्मनी स्थित ईएस टेक समूह का अधिग्रहण किया था। हैरिस ने बताया कि अधिग्रहीत इकाई उसके समग्र वृद्धि पथ में योगदान देगी। *भाषा*

एआई के सौदों की संभावनाएं आगे भी बरकरार: एलटीआईमाइंडट्री

अभीक दास
बेंगलूरु, 25 जनवरी

आईटी सेवा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एलटीआईमाइंडट्री को उम्मीद है कि अगले वित्त वर्ष में भी सौदों के दमदार प्रस्ताव मिलते रहेंगे। इनमें नवीकरण और शुद्ध रूप से आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) दोनों तरह के सौदे शामिल हैं, जिनसे वृद्धि की बेहतर संभावनाएं बनेंगी। यह ऐसे समय में है जब उथल-पुथल वाले वर्ष के बाद भी व्यापक आर्थिक हालात नहीं बदले हैं।



कंपनी के मुख्य कार्य अधिकारी और प्रबंध निदेशक वेणु लांबू ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बातचीत में बताया, ‘एआई इंजीनियरिंग, बिजनेस प्रोसेस को फिर से परिभाषित करने और एआई कारोबार परिचालन से जुड़े एआई प्रधान कारोबार भी पिछली कुछ तिमाहियों से थोड़े बड़े हो रहे हैं। इसलिए मैं लगातार सौदे पूरे करने के संबंध में काफी आशावादी और आश्वस्त हूँ। एलटीआईमाइंडट्री हाल के दिनों में कुछेक बड़े सौदे पूरे करने में कामयाब रही है। उसने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के साथ दो बड़े सौदे किए हैं। इनमें से एक सौदा पैन नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए है। उसने इस वित्त वर्ष में अमेरिका की

चौथे पायदान की दौड़ में विनफास्ट

तेजी से बढ़ रहे भारतीय बाजार में अपनी पैठ बढ़ा रही है वियतनाम की यह वाहन कंपनी

शाइन जेकब
चेन्नई, 25 जनवरी

दो वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपनियों - टेस्ला और विनफास्ट ने जुलाई में भारत में नई पेशकशों के साथ बाजार में दस्तक दी थी। अब छह महीने बाद वियतनामी कंपनी भारतीय बाजार में धूम मचा रही है। पिछले दो महीनों में यह भारत में चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली ईवी निर्माता बन गई है। उसने ह्यूंडे मोटर, बीएमडब्ल्यू, किआ और चीनी कंपनी बीवाईडी जैसी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। टेस्ला भी प्रीमियम कैटेगरी में सतर्कता के साथ कदम उठा रही है।

विनफास्ट ने मिड-प्रीमियम कैटेगरी में आक्रामक मूल्य निर्धारण, घरेलू निर्माणों और बड़े रिटेल नेटवर्क के जरिये 1,161 वाहन बेचे। इस दौरान टेस्ला की बिक्री 259 वाहन रही और उसने प्रीमियम सेगमेंट को बढ़ावा दिया। दोनों ब्रांड 15 जुलाई को भारत में एक साथ लॉन्च हुए थे।

जनवरी में अब तक, टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक ने 5,545 वाहनों की बिक्री के साथ बाजार में दबदबा बनाया, उसके बाद जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर (3,503 वाहन) और महिंद्रा इलेक्ट्रिक (2,670 वाहन) का नंबर रहा।

एनवायरोकैटालिस्ट्स की ओर से



साझा किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इन दो वैश्विक दिग्गजों की पेशकश के बाद से भारत में 77,755 पंजीकरण हुए। इनमें विनफास्ट की भागीदारी 1.5 फीसदी रही। उसने खासकर पिछले दो-तीन महीनों में अन्य बड़ी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी को नुकसान पहुंचाया। टेस्ला की बाजार भागदारी 0.3 फीसदी रही।

एनवायरोकैटालिस्ट्स के संस्थापक और लीड एनालिस्ट सुनील दहिया ने कहा, ‘2025 के मध्य से भारत के मिड-प्रीमियम ईवी एसयूवी सेगमेंट में विनफास्ट की एंट्री ने बीवाईडी, ह्यूंडे,

अशोक लीलैंड का स्क्रेपेज सेंटर पर दांव अमेरिका को स्मार्टफोन का निर्यात 200% बढ़ा

सुरजीत दास गुप्ता

नई दिल्ली, 25 जनवरी

वित्त वर्ष 26 में अप्रैल से नवंबर के बीच ऐपल इंक की अगुआई में अमेरिका को भारत का स्मार्टफोन निर्यात सालाना आधार पर 200 प्रतिशत से अधिक बढ़कर 12.54 अरब डॉलर हो गया। वाणिज्य विभाग के नवीनतम आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। वित्त वर्ष 25 की इसी अवधि के दौरान यह आंकड़ा 4.1 अरब डॉलर था।

स्मार्टफोन के निर्यात में इस तीन गुना उछाल ने न केवल भारत से अमेरिका को होने वाले कुछ प्रमुख वस्तुओं के निर्यात में भारी गिरावट की भरपाई की है, बल्कि समूची निर्यात वृद्धि को बरकरार रखने में भी मदद की है। अमेरिका के व्यापक स्तर पर 50 प्रतिशत शुल्क लगाने और निर्यात में भारी गिरावट की व्यापक चिंताओं के बावजूद ऐसा हुआ है। इस अवधि के दौरान जिन उद्योगों को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा है, उनमें रत्न और आभूषण (निर्यात में सालाना आधार पर 44 प्रतिशत गिरावट), वाहन पुर्जें (6.8 प्रतिशत की गिरावट) और पेट्रोलियम उत्पाद (7.78 प्रतिशत की गिरावट) जैसे

सेक्टर शामिल हैं। अमेरिका को निर्यात की जाने वाली 98 वस्तुओं में से 59 वस्तुएं दो अंकों के वर्गीकरण वाले स्तर पर इस अवधि के दौरान ब्राह्मजुद वित्त वर्ष 26 के पहले आठ महीने में अमेरिका को भारत का समूचा निर्यात 11.28 प्रतिशत बढ़ा। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि जहां अमेरिका को कुल निर्यात में 5.9 अरब डॉलर की वृद्धि हुई, वहीं अकेले स्मार्टफोन के निर्यात में 8.3 अरब डॉलर तक का इजाफा हुआ। इसने न केवल अन्य वस्तुओं के निर्यात में संकुचन को बेअसर कर दिया, बल्कि

इंजीनियरिंग वस्तुओं और लौह और इस्पात के उत्पादों में ब्यास्ट फर्नेस 6, सलाव में नया स्टील संयंत्र तथा जेएफई स्टील और पोस्को के साथ हमारे संयुक्त उद्यम। इसलिए हम लगभग 2.5 करोड़ टन जोड़ेंगे। हम खनिज, डिजिटल और डाउनस्ट्रीम क्षमताओं में भी खर्च करेंगे।

सवाल जवाब

वित्त वर्ष 31 तक करेंगे 2 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश



वैश्विक अस्थिरता और बढ़ती व्यापारिक रुकावटों के बीच जेएसडब्ल्यू स्टील घरेलू मांग पर बढ़ा दांव लगा रही है। ऑडियो साक्षात्कार में जेएसडब्ल्यू स्टील के संयुक्त प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी जयंत आचार्य ने ईशिता आयान दत्त को वित्त वर्ष 31 तक जारी और नियोजित निवेशों, स्टील उद्योग के निकट और दीर्घकालिक दृष्टिकोण

तथा मूल्य संबंधी कथित मिलीभगत पर सीसीआई जांच की रिपोर्ट के बारे में चर्चा की। संपादित अंश ...

वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में स्टील के कम दामों का असर शुद्ध बिक्री की आमदनी में दिखाई दिया। चौथी तिमाही पर क्या नजरिया है? पिछली तिमाही में दाम कई साल के निचले स्तर पर थे। दिसंबर के आखिर से इनमें सुधार शुरू हुआ। सुरक्षा शुल्क भी वक्त पर लगाया गया। सामान्य हालात चौथी तिमाही में जोरदार मांग में मदद करेंगे, जिससे हम कीमतों में सुधार और कोकिंग कोल की लागत में हुई वृद्धि के एक हिस्से की भरपाई कर पाएंगे।

ऐसा लगता है कि आप अपनी विकास योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और अब पहले के 5.1 करोड़ टन की तुलना में वित्त वर्ष 31 तक 5.6 करोड़ टन क्षमता पर विचार कर रहे हैं। क्या यह सही है? हमने केवल ओडिशा परियोजना के पहले चरण की ही घोषणा की है, जो जागतसिंहपुर में होगी। इसके अलावा हमारे पास विलय और अधिग्रहण के अन्य विकल्प होंगे। इसलिए हम वित्त वर्ष 31 तक ओहायो समेत 5.6 करोड़ टन और भारत के मामले में लगभग 5.5 करोड़ टन के करीब होंगे।

वित्त वर्ष 31 तक आप निवेश की क्या योजना बना रहे हैं? हम 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश करेंगे। ओडिशा की घोषणा के बाद कुल पूंजीगत व्यय 1 लाख करोड़ रुपये होगा, जिस 4 से 5 वर्षों में खर्च किया जाएगा। हम अन्य क्षमताओं को भी जोड़ेंगे - ओडिशा में दूसरा चरण, विजयनगर में ब्लास्ट फर्नेस 6, सलाव में नया स्टील संयंत्र तथा जेएफई स्टील और पोस्को के साथ हमारे संयुक्त उद्यम। इसलिए हम लगभग 2.5 करोड़ टन जोड़ेंगे। हम खनिज, डिजिटल और डाउनस्ट्रीम क्षमताओं में भी खर्च करेंगे।

क्या कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) यूरोपीय संघ (ईयू) को आपके निर्यात पर असर डाल रहा है?

सीबीएएम गणना के कुछ तत्वों को अभी भी समझा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना ​​है कि कीमतें बढ़ेंगी और हमने 2 से 3 दशकों से अधिक समय के दौरान यूरोप में अपने ग्राहकों के साथ संबंध बनाए हैं। इसलिए वे हमारे जैसे विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं से आपूर्ति जारी रखेंगे। अलबता घरेलू बाजारों की रक्षा के लिए देश तेजी से टैरिफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे उन्हें व्यापारिक उपायों के रूप में तैयार किया गया हो या सीबीएएम जैसी तंत्रों के रूप में। मेरी राय में भारत दमदार घरेलू मांग के दम पर बेहतर स्थिति में है।

क्या आप 12 प्रतिशत के स्तर से शुरू होने वाले चरणबद्ध संरक्षण शुल्क से सहज हैं? यह स्वागत योग्य कदम है कि संरक्षण शुल्क को अंतिम रूप दे दिया गया है। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि स्टील उद्योग देश के अंदरूनी और ग्रामीण इलाकों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाता है - बुनियादी ढांचे के विकास में सहायता करते हुए और देश के प्रमुख क्षेत्र में रोजगार पैदा करते हुए। इसी वजह से स्टील उद्योग के लिए देश को आगे बढ़ाने के वास्ते उपयुक्त मार्जिन की जरूरत है।

सीसीआई की जांच रिपोर्ट में जेएसडब्ल्यू स्टील सहित कई स्टील कंपनियों द्वारा दामों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे? मैं चल रही किसी प्रक्रिया पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील सभी लागू प्रतियस्धी कानूनों या देश के किसी भी अन्य कानून के अनुपालन के मामले में पूरी तरह से आश्वस्त है। यह साल 2021 का पुराना मामला है। टीएमटी जैसे उत्पाद में आपूर्ति लगभग 70 प्रतिशत स्तर पर मुख्य रूप से सेकंडरी सेक्टर की रहती है, प्राइमरी ससेक्टर छोटा होता है। यह ऐसा उत्पाद भी है, जहां मूल्य लिक्विडता सबसे अधिक रहती है। मुझे इस मामले में कोई दम नहीं दिखता, लेकिन वैसे भी जेएसडब्ल्यू स्टील सभी कानूनों का पूरी तरह से अनुपालन करती है।

3 से 5 नए टाइटल पेश करेगी क्राफ्टन

अजिंक्य कावले
मुंबई, 25 जनवरी

बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (बीजीएमआई) की डेवलपर दक्षिण कोरिया की गेमिंग कंपनी क्राफ्टन साल 2026 में तीन से पांच नए टाइटल पेश करने की योजना बना रही है। कंपनी अपने फ्लैगशिप मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम से और बढ़कर विस्तार करने पर विचार कर रही है, भारत में जिसके 24 करोड़ से ज्यादा उपयोगकर्ता हैं।

केआईजीआई (क्राफ्टन इंडिया गेमिंग इनक्यूबेटर) के प्रमुख और क्राफ्टन इंडिया के एसोसिएट निदेशक (पब्लिशिंग) अनुज साहनी ने कहा कि क्राफ्टन द्वारा इस साल पेश किए जाने वाले कुछ गेम पिछले एक साल से आंतरिक स्तर पर डेवलप किए जा रहे हैं।

साहनी ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया, ‘हम साल 2026-27 में और भी कई गेम पेश करेंगे, शायद इस साल 3 से 5 गेम आएंगे। हम भारतीय उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग जेनर और स्टाइल के गेम का अनुभव प्रदान करना चाहते हैं, हम देखेंगे कि यह भारतीय दर्शकों के लिए कैसा काम करता है।’

इन गेम को आंतरिक डेवलपमेंट और थर्ड पार्टी पब्लिशिंग के संयोजन से पेश किया जाएगा। यह बात ऐसे समय में सामने आई है, जब कंपनी गेम स्टूडियो नॉटिलस मोबाइल में नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल कर चुकी है, जो स्पोर्ट्स सिमुलेशन गेम रियल क्रिकेट बनाने वाली कंपनी है।

एंटीमाइक्रोबियल की बिक्री पर सख्ती!

पृष्ठ 1 का शेष

अनुपालन पर नजर रखने वाली फर्म टीमलीज रेटेक के मुख्य कार्याधिकारी और सह-संस्थापक ऋषि अग्रवाल ने कहा कि ओटीसी एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर सख्ती से लघु अवधि में मात्रात्मक बिक्री प्रभावित हो सकती है। ऐसा खास तौर पर उन दवाओं के मामले में दिखेगा जो पचें आधारित मांग के एजेंटों तथा इसानों के साथ एंजेंटिक जुड़ाव का उपयोग करके बिजनेस प्रोसेस को प्रबंधित करना शामिल होता है।

बजाय दुरुपयोग को रोकना है। अग्रवाल ने कहा, ‘वैध एवं पचें आधारित मांग बनी रहेगी और समय के साथ-साथ बाजार उसी के अनुरूप हो जाएगा।’

अशिका ग्रुप की विश्लेषक निराली शाह ने कहा कि ओटीसी एंटीबायोटिक दवाओं की बिक्री पर नकेल कसने से संक्रमणरोधी दवाओं का बाजार ध्वस्त नहीं होगा, लेकिन इससे उन क्षेत्रों पता चलेगा जहां वृद्धि बेहद नाजुक रही है। उन्होंने कहा, ‘खुद ही दवा लेने और बिना पचें की खुदरा बिक्री वाली श्रेणियों पर दबाव



पड़ेगा, लेकिन पचें के साथ अथवा अस्पताल पर केंद्रित दवाओं की बिक्री बेहतर रहने की संभावना है।

डीसीसी को एक शीर्ष विशेषज्ञ समिति द्वारा सीपी गई रिपोर्ट के आधार पर नया ढांचा तैयार किया गया है। इसमें नई एंटीबायोटिक

दवाओं के विकास, दोबारा उपयोग को रोकने के लिए मुहर वाले पचें और एंटीमाइक्रोबियल बिक्री को ट्रैक करने के लिए राज्य आधारित दैक्स

सॉफ्टवेयर मॉडल तैयार करने का आह्वान किया जा सकता है।

मैनकाइड फार्मा और ऑर्किड जैसी दवा कंपनियां अपनी एएमआर केन्द्रित पहल को मजबूत कर रही हैं। इनमें एंटीबायोटिक पाटेंटफिलियो को राष्ट्रीय उपचार दिशानिर्देशों के साथ संबद्ध करना, विनिर्माण गुणवत्ता मानकों में सुधार लाना और जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य

सेवा पेशेवरों के साथ मिलकर काम करना शामिल है।

मैनकाइड फार्मा के प्रवर्तक और सीईओ शीतल अरोड़ा ने कहा कि भारत में एंटीबायोटिक दवाओं की मांग काफी हद तक वास्तविक क्लीनिकल जरूरत से प्रेरित है। पचें के आधार पर उपयोग को बढ़ावा देने से इस श्रेणी में स्थायी वृद्धि को बल मिलेगा। सापले ने कहा कि अब लक्षित उपचार और डायग्नोस्टिक्स की ओर रुझान बढ़ा है। ऐसे में एंटीमाइक्रोबियल कॉम्बिनेशन की जांच बढ़ रही है।

मुंबई | सोमवार, 26 जनवरी 2026

बिज़नेस स्टैंडर्ड

मुंबई संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संगीता अरविन ठाकुर खेओरा द्वारा वारुदत्त दामेट, नं. दामेट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, दीपा एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, विष्णु नगर, दीपा, नवी मुंबई-400708 से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 से प्रकाशित

संपादक: कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. MAH/MN/2008/24325 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 022-40275300/40275400

सबरिफ़्रेशन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुशी मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेन्सन बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अडिमार नहीं